

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 जनवरी 2015—पौष 26, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2015

क्र. एफ-ए-3-39-2012-1-पांच(05).—यतः, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) के अधीन कर के अपवंचन का निवारण करने या उसे रोकने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 57 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थान पर 1 अगस्त, 2014 से जांच चौकी स्थापित करती है और नाके का निर्माण करती है, अर्थात्:—

#### अनुसूची

जांच चौकी तथा नाके के स्थान का नाम तथा विवरण (1)	जांच चौकी तथा नाके की अवस्थिति (2)
थांदला-कुशलगढ़ मार्ग पर ग्राम-खजूरी, जिला-झाबुआ	थांदला-कुशलगढ़ मार्ग पर (कुशलगढ़ की ओर) 2.25 कि.मी. के मध्य-खजूरी फार्म हाऊस के सामने.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2015

क्र. एफ-ए-3-39-2012-1-पांच(05).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-39-2012-1-पांच(05), दिनांक 16 जनवरी, 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 16<sup>th</sup> January 2015

No. F-A-3-39-2012-1-V(05).—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is necessary so to do, with a view to prevent or check evasion of tax under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002);

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 57 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, sets up a check post and erects barrier at the place specified in the Schedule below from 1st August, 2014, namely:—

### SCHEDULE

Name and description of place of check post and barrier (1)	Location of check post and barrier (2)
Village Khajuri, District Jhabua on Thandla-Kushalgarh Road.	Between 2.25 K.M. (towards Kushalgarh) on Thandla-Kushalgarh Road-opposite Khajuri Farm House.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.